

MAY 2023 (Semester)  
**TENDERING AND ACCOUNTS**

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper A, B and C.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer **all** the 10 parts of the question No. 1 in **Section A**. Each part carries **one** mark and **all** 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in **Section B**. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in **Section C**. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve **all** the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.



**सेक्शन - ए**  
**Section - A**

1. (i) किसी सम्पत्ति का मूल्य कला, फैशन में बदलाव, नये आविष्कारों, अभिकल्पना के विकास के कारण कम होने पर उसे कहा जाता है

- (a) लुप्त प्रायता (b) सम्भावित व्यय  
(c) वार्षिकी (d) उपरोक्त सभी

Due to change in art, fashion and new inventions or development in design, the value reduced of any property is called -

- (a) Obsolescence (b) Outgoing  
(c) Annuity (d) All the above

- (ii) किसी सम्पत्ति की मूल लागत तथा पिछले वर्ष तक मूल्यहास का अन्तर कहलाता है

- (a) बही मूल्य (b) बाजार मूल्य  
(c) पूँजीगत मूल्य (d) विक्रय मूल्य

Original cost of a property minus depreciation up to previous year is known as -

- (a) Book value (b) Market value  
(c) Capitalised value (d) Selling price

- (iii) मानक माप पुस्तिका में माप भरने का क्रम होता है

- (a) चौड़ाई, लम्बाई, ऊँचाई (b) लम्बाई, ऊँचाई, चौड़ाई  
(c) लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई (d) ऊँचाई, चौड़ाई, लम्बाई

The order of booking dimensions in standard measurement book is

- (a) Breadth, Length, Height (b) Length, Height, Breadth  
(c) Length, Breadth, Height (d) Height, Breadth, Length

- (iv) दोनों पक्षों को शामिल करने वाले व्यक्तियों के निर्णय द्वारा विवाद का निपटारा कहा जाता है

- (a) न्याय (b) मध्यस्थता  
(c) फैसला (d) मुआवजा

The settlement of a dispute by the decision of persons involving both the parties is called

- (a) Judgement (b) Arbitration  
(c) Decision (d) Compensation

- (v) काम में देरी के कारण मुआवजे के रूप में बरामद राशि को कहा जाता है

- (a) धरोहर राशि (b) परिनिर्धारित क्षति राशि  
(c) प्रतिभूति राशि (d) इनमें से कोई नहीं

The amount recovered as compensation against delay in the work is known as -

- (a) Earnest money (b) Liquidated damage money  
(c) Security money (d) None of these

- (vi) संविदात्मक भुगतान में, RA बिल का अर्थ है

- (a) रिसीप्ट एवं अकाउंट्स बिल (b) रिकरिंग अमाउंट बिल  
(c) रिसीव्ड अमाउंट बिल (d) रनिंग अकाउंट बिल

In contractual payments, RA Bill means -

- (a) Receipts & Accounts Bill (b) Recurring Amount Bill  
(c) Received Amount Bill (d) Running Account Bill

(vii) भवन के मूल्यहास के अनुमान के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है ?

- (a) स्थिर प्रतिशत विधि (b) प्रत्यक्ष तुलना विधि  
(c) तार्किक वक्र विधि (d) रेंटल विधि

Which of the following method is used for estimation of depreciation of building ?

- (a) Constant percentage method (b) Direct comparison method  
(c) Logistic curve method (d) Rental method

(viii) मस्टर रोल के नॉमिनल रोल (पार्ट-1) में क्या दर्ज किया जाता है ?

- (a) मात्रा का विवरण (b) श्रमिकों को मजदूरी  
(c) भुगतान की स्थिति (d) दैनिक उपस्थिति

What is recorded in nominal roll (Part-I) of Muster Roll ?

- (a) Details of quantity (b) Wages of the workers  
(c) Payment condition (d) Daily attendance

(ix) BOT का अर्थ है

- (a) भवन – प्रेक्षण – प्रशिक्षण (b) निर्माण – संचालन – स्थानान्तरण  
(c) भवन – संचालन – यातायात (d) निर्माण – संगठन – यातायात

BOT indicates –

- (a) Building – Observation – Training  
(b) Build – Operate – Transfer  
(c) Building – Operate – Transport  
(d) Build – Organization – Transport

(x) जब ठेकेदार को निर्माण की कुल लागत और कुछ लाभ का भुगतान किया जाता है तो इस प्रकार का अनुबन्ध कहलाता है

- (a) अननुसूचित अनुबंध (b) नामांकित अनुबंध  
(c) लागत सहित अनुबंध प्रतिशत (d) कार्य आदेश

When actual cost of construction plus certain profit is paid to the contractor then such a contract is known as

- (a) Unscheduled contract (b) Nominated Contract  
(c) Cost Plus Percentage Contract (d) Work Order

(1×10)

### सेक्शन – बी

### Section – B

2. धरोहर राशि एवं जमानत राशि को समझाइये ।  
Explain Earnest money and Security money. (3)
3. ई. निविदा के बारे में समझाइये ।  
Explain about E-Tendering. (3)
4. मलबा मूल्य एवं कबाड़ मूल्य को समझाइये ।  
Explain Scrap value and salvage value. (3)
5. विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों को समझाइये ।  
Explain different types of sanctions. (3)

P.T.O.

6. मध्यस्थता का अर्थ बताइये ।  
Give the meaning of Arbitration. (3)
7. Engineering Procurement Construction Contract (EPC) को समझाइये ।  
Explain Engineering Procurement Construction Contract (EPC). (3)
8. रनिंग अकाउंट बिल एवं अंतिम बिल में अन्तर समझाइये ।  
Explain the difference between Running Account Bill and Final Bill. (3)
9. निविदा आमन्त्रण सूचना को समझाइये ।  
Explain the Notice to Invite Tender (NIT). (3)

**सेक्शन – सी**

**Section – C**

10. विभिन्न प्रकार के ठेकों को विस्तार से समझाइये ।  
Explain different types of contracts in detail. (8)
11. कार्य करवाने की विभिन्न विधियों को समझाइये ।  
Explain the different methods for carrying out works. (8)
12. मस्टर रोल को विस्तार से समझाइये ।  
Explain Muster Roll in detail. (8)
13. किराया निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइये ।  
Explain the process of rent fixation. (8)
14. BOT, DBFOT एवं OMT contract को समझाइये ।  
Explain BOT, DBFOT and OMT contracts. (8)
15. एक व्यक्ति द्वारा एक पुराना भवन ₹ 3,00,000 में खरीदा गया था जिसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है । भवन की आयु 20 वर्ष मानते हुए एवं स्क्रैप कीमत खरीद मूल्य का 10% मानते हुए 4% ब्याज से वार्षिक सिंकिंग फंड की गणना कीजिए ।  
An old building has been purchased by a person at a cost of ₹ 3,00,000 excluding the cost of the land. Calculate the amount of annual sinking fund at 4% interest assuming the future life of the building as 20 years and the scrap value of the building as 10% of the cost of purchase. (8)